

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 109] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 1, 1968/चैत्र 12, 1890

No. 109] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 1968/CHAITRA 12, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

INCOME-TAX

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March 1968

S.O. 1227.—In pursuance of sub-clause (f) clause (iii) of sub-section (3) of section 194A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the Madras Industrial Investment Corporation Limited, Madras, for the purposes of the said sub-clause.

[No. 24/F. No. 1(453)/67-TPL.]

S. A. L. NARAYANA ROW, Addl. Secy.

(417)

